

सत्र 2021-22

नियमित

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय

स्कूल स्तर गायन एवं स्वर वाद्य पाठ्यक्रम अंक विभाजन

MARKING SCHEME OF SCHOOL LEVEL

Praveshika Certificate in performing art- (P.C.P.A.)

Previous

PAPER	SUBJECT VOCAL/INSTRUMENTAL (NONPERCUSSION)	MAX	MIN
1	PRACTICAL- I Choice Raga Demonstration & viva	100	33
2	PRACTICAL - II National Song & Patriotic Song. Etc	100	33
	GRAND TOTAL	200	66

परिशिष्ट क.-02

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय

स्कूल स्तर गायन एवं स्वर वाद्य पाठ्यक्रम

Praveshika Certificate in Performing Art (P.C.P.A.)

प्रथम वर्ष गायन/स्वरवाद्य

प्रायोगिक : 1 प्रदर्शन एवं मौखिक

पूर्णांक : 100

1. संगीत की परिभाषा व सामान्य परिचय।
2. स्वर (शुद्ध, विकृत), सप्तक (मंद्र, मध्य, तार), थाट, वर्ण, अलंकार (पल्टा), आरोह-अवरोह, पकड व राग की परिभाषाएँ।
3. यमन, भैरव व भूपाली रागों के थाट, जाति, शुद्ध विकृत स्वर, वादी-संवादी एवं गायन समय की जानकारी।
4. सरल अलंकारों का ज्ञान।
5. त्रिताल, कहरवा और दादरा तालों का परिचय एवं ज्ञान।
6. भातखण्डे स्वरलिपि एवं ताल चिन्हों का ज्ञान।
7. अपने वाद्य का साधारण ज्ञान।
8. बिलावल, भैरव व कल्याण थाट में दस-दस अलंकारों का गायन।
9. यमन, भैरव और बिलावल रागों में स्वरमालिका, लक्षणगीत, मध्य लय ख्याल का गायन।
10. अपने वाद्य पर इन रागों में मध्य लय की रचना/गत का (स्थायी, अंतरा सहित) वादन।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय

Praveshika Certificate in Performing Art (P.C.P.A.)

प्रथम वर्ष गायन/स्वरवाद्य
प्रायोगिक 2 प्रदर्शन एवं मौखिक

पूर्णांक : 100

राष्ट्रगीत, राष्ट्र गान, वन्दे मातरम तथा कोई राष्ट्रीय गीत प्रार्थना, वंदना आदि का गायन अथवा वाद्य के विद्यार्थियों के लिए अपने वाद्य पर वादन अथवा धुन।

संदर्भ ग्रंथ

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. हिन्दुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 से 3 | — | पं. विष्णु नारायण भातखण्डे |
| 2. संगीत प्रवीण दर्शिका | — | श्री एल. एन. गुणे |
| 3. राग परिचय भाग 1 एवं 2 | — | श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव |
| 4. संगीत विशारद | — | श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग |
| 5. प्रभाकर प्रश्नोत्तरी | — | श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव |
| 6. संगीत शास्त्र | — | श्री एम. बी. मराटे |
| 7. अभिनव गीतांजलि भाग 1 से 5 | — | पं. श्री रामाश्रय झा |

Praveshika Certificate in performing art- (P.C.P.A.)

Final

PAPER	SUBJECT VOCAL/INSTRUMENTAL (NONPERCUSSION)	MAX	MIN
1	Theory Basic Music - Theory	100	33
2	PRACTICAL Choice Raga Demonstration & Viva	100	33
	GRAND TOTAL	200	66

परिशिष्ट क्र.-3

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय

Praveshika Certificate in Performing Art (P.C.P.A.)

अंतिम वर्ष गायन/स्वरवाद्य
संगीत शास्त्र

समय 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

1. संगीत शब्द की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, संगीत की पद्धतियाँ (उत्तर भारतीय एवं कनार्टक) की जानकारी। संगीत के प्रकारों (शास्त्रीय, भाव, चित्रपट एवं लोक संगीत आदि) का परिचय।

2. हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के दस थाटों के नाम एवं उनके स्वरों की जानकारी ।
3. थाट और राग का तुलनात्मक अध्ययन। आश्रय रागों की संक्षिप्त जानकारी।
4. निम्नलिखित रागों का शास्त्रीय विवरण— राग यमन, भैरव, भूपाली, खमाज, काफी।
5. लय (विलम्बित, मध्य, द्रुत,) मात्रा, विभाग, खाली,, भरी, सम एवं आवर्तन की जानकारी।
6. त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा और झपताल तालों का शास्त्रीय परिचय एवं उनका ताललिपि में लेखन। (दुगुन के साथ)
7. पं. भातखण्डे जी की स्वरलिपि पद्धति का सामान्य ज्ञान।
8. अपने वाद्य का संक्षिप्त परिचय एवं उसके विभिन्न अवयवों की जानकारी।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अन्तर्गत

Praveshika Certificate in Performing Art (P.C.P.A.)

अंतिम वर्ष गायन/स्वरवाद्य

प्रायोगिक :- प्रदर्शन एवं मौखिक

समय – 20 मिनट

पूर्णांक :100

1. पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति।
2. कल्याण, भैरव, खमाज एवं काफी थाटों में दस-दस अलंकारों का गायन।
3. पाठ्यक्रम के राग— यमन, भैरव, खमाज, काफी एवं भूपाली।
4. पाठ्यक्रम के रागा में स्वरमालिका, लक्षण गीत। (गायन के विद्यार्थियों के लिये)
5. पाठ्यक्रम के एक राग में विलम्बित रचना। (ख्याल का गायन अथवा मसीतखानी गत का वादन)
6. पाठ्यक्रम के रागों में मध्यलय की एक रचना (ख्याल गायन अथवा रजाखानी गत का पॉच— पॉच तानों/तोड़ो सहित वादन)
7. आकाशवाणी द्वारा मान्य जनगणमन तथा वंदेमातरम् का स्वर लय में गायन/वादन।
8. तीनताल, एकताल, कहरवा, दादरा व झपताल तालों का हाथ से ताली देकर दुगुन सहित प्रदर्शन।

संदर्भ ग्रंथ

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. हिन्दुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 से 3 | — पं. विष्णु नारायण भातखण्डे |
| 2. संगीत प्रवीण दर्शिका | — श्री एल. एन. गुणे |
| 3. राग परिचय भाग 1 से 2 | — श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव |
| 4. संगीत विशारद | — श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग |
| 5. प्रभाकर प्रश्नोत्तरी | — श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव |
| 6. संगीत शास्त्र | — श्री एम. बी. मराठे |
| 7. अभिनव गीतांजलि भाग 1 से 5 | — पं. श्री रामाश्रय झा |